

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 12, 1973/पोष 22, 1894

No. 9] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 12, 1973/PAUSA 22, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 12th January 1973

SUBJECT.—*Export of Semi-processed hides and skins including E.I. tanned and wet blue hides and skins and crust leather.*

No. 3/ETC(PN)/73.—Reference Public Notice No. 33-ETC(PN)/72, dated the 14th December, 1972, on the above subject.

It has been decided by the Ministry of Foreign Trade to extend the date of registration of contracts with the State Trading Corporation, referred to in paragraph 2 of the above Public Notice, from the 7th January, 1973 to 25th January, 1973 in respect of contracts entered into prior to the date of canalisation (i.e. 14th December, 1972) of "all categories of semi-processed hides and skins, including E.I. tanned and wet blue hides and skins, and crust leather".

K. S. NARANG,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1973

विषय :—ई० आई० कमाई हुई तथा गीली नीली खालों और चमड़े तथा पपड़ीदार चमड़े सहित अर्ध-संसाधित खालों तथा चमड़ों का निर्यात ।

सं० : 3-ईटीसी(पीएन)/73/उपर्युक्त विषय पर, सार्वजनिक सूचना संख्या 33-ईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 14 दिसम्बर, 1972 के सन्वर्ध में

विदेश व्यापार मंत्रालय ने उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना की कंडिका 2 में उल्लिखित राज्य व्यापार निगम के साथ संविदाओं के पंजीकरण की तिथि को ई०आई० कमायी हुई तथा गीली नीली खालों और चमड़े तथा पपड़ीदार चमड़ों सहित अर्ध-संसाधित खालों तथा चमड़ों की सभी श्रेणियों के सरणीबद्ध (अर्थात् 14-12-72) की तिथि से पूर्व की गई संविदाओं के संबंध में 7 जनवरी, 1973 से बढ़ाकर 25 जनवरी, 1973 करने का निश्चय किया है ।

के० एस० नारंग,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।